



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157]  
No. 157]

नई दिल्ली, वीरवार, अप्रैल 23, 1981/वैशाख 3, 1903  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 1981/VAISAKHA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 303(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 82, 84 या 85 के अन्तर्गत आने वाली सेल्यूलोजी अपशिष्ट सामग्री की ईंधन ब्रिकेटों में संहत करने के लिए विद्युत प्रचालित ब्रिकेटोकरण प्रेशों और ऐसी प्रेशों के प्लोजों और उपसाधनों को, जब उनका आयात भारत में किया जाए,—

(क) उन पर उद्ग्रहणीय उस सीमा-शुल्क को, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उसने भाग से जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है, और

(ख) दूसरे उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,]

छूट देती है।

[सं. 113/फा. सं. 346/18/80-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd April, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 303(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts power operated briquetting presses for compacting cellulosic waste material into fuel briquettes, and parts and accessories of such presses falling within Chapters 82, 84 or 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from —

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 25 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

[No. 113/F. No. 346/18/80-TRU]

सा. क्र. नि. सं. 304 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1981 के खंड 47 के जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उपखण्ड (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 47-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 72 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और

प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“73. सं. 113-सीमा-शुल्क, तारीख 23 अप्रैल, 1981।”

[सं. 114/फा. सं. 346/18/80-टी आर यू]

जे. श्रीधरन, अवर सचिव

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 47 of the Finance Bill, 1981, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47-Customs, dated 1st March, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification, after Serial No. 72 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

“73. No. 113—Customs, dated the 23rd April, 1981.”

[No. 114/F. No. 346/18/80-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.